

**वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के संपत्ति विवरण की आपत्ति के संबंध में बांछित आख्या**

माननीय महोदय मेरे वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के संपत्ति के विवरण के संबंध में, इन दोनों वित्तीय वर्षों में प्राप्त सकल आय से अधिक के Investments एवं Deductions के कारण अन्य घरेलू खर्चों के पूरा करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर M.O.D. Balance एवं Saving Balance का विवरण तथा 3 LIC Policies की किश्तों के जमा विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है।

जिसके संबंध में बिंदुवार आख्या निम्नवत है-

**Point NO-1**

इस संबंध में स्पष्टीकरण के रूप में मेरा विनम्र निवेदन है कि इससे पूर्व 2 वित्तीय वर्षों के अन्तराल पर तीसरे वित्तीय वर्ष में पूर्व के दोनों वित्तीय वर्षों का अलग-अलग संपत्ति विवरण भौतिक रूप से (Hard Copy) माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रेषित किया जाता था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 का संपत्ति विवरण वित्तीय वर्ष 2020-21 में Online प्रस्तुत किया है, इसलिए मैंने इन दोनों वित्तीय वर्षों में अपनी पत्नी की वार्षिक आय जिसका विवरण कॉलम नंबर 3 में दिया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रारंभ में अपने स्वयं के, अपनी पत्नी एवं विद्यार्थी पुत्र के बचत खाता की बचत धनराशि, जिसका उल्लेख कॉलम नंबर 5 में किया गया है।

संपत्ति के विवरण के कॉलम नंबर 3 में संदर्भित वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में मेरी पत्नी की आय 6,06,402/-रुपये दर्शायी गयी है।

इसी प्रकार कॉलम नंबर 5 में वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रारंभ में मेरे, मेरी पत्नी एवं मेरे विद्यार्थी पुत्र के बचत खाता की बचत धनराशि 32,76,216/-रुपये दर्शायी गयी है।

इस प्रकार यदि मेरी पत्नी के दोनों वित्तीय वर्षों की आय एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रारंभ में मेरे स्वयं के, मेरी पत्नी एवं मेरे विद्यार्थी पुत्र के बचत खाता की बचत धनराशि को मेरी अन्य स्रोतों सहित सकल आय में जोड़ा जाये तो यह धनराशि  $32,76,216 + 6,06,402 + 57,47,909 = 96,30,527$ /-रुपये हो जाती है।

चूंकि बैंक के बचत खाते में बहुत कम ब्याज मिल रहा था और सेविंग बैंक खाते में ज्यादा पैसा पड़ा रहने से Online Fraud का भी खतरा था। अतः Online Fraud की किसी संभावना से बचने एवं पूर्व की बचत धनराशि पर अधिक ब्याज/लाभ पाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्व की बचत धनराशि Mutual Funds आदि में Invest कर दिया।

इस प्रकार मेरी पत्नी की आय एवं बैंक में पूर्व की बचत धनराशि को न जोड़कर केवल मेरे दोनों वित्तीय वर्षों की सकल आय के सापेक्ष कटौतियों तथा Investments की गणना करने के कारण यह अंतर दिखायी दे रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के संपत्ति विवरण के कॉलम नंबर 8 में पत्नी की आय एवं पूर्व के बचत खाते की अवशेष धनराशि का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में भी इसी प्रकार विवरण प्रेषित कर दिया जाता तो शायद गणना संबंधी यह अंतर न दिखायी देता। ऑनलाइन संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास होने के कारण हुयी इस त्रुटि के लिए मुझे खेद है।

(उल्लेखनीय है कि मेरे पैतृक कृषि भूमि भी है, जो कि अभी मेरे पिताजी के नाम है। पिताजी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लेकिन कृषि भूमि की भी व्यवस्था देखते हैं और मुझे पिता जी के कृषि उपज का खाद्यान्न आदि भी प्राप्त होता है।)

इसी प्रकार मेरी पत्नी अपने माता-पिता की एकमात्र संतान है। मेरी पत्नी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। अतः एक मात्र संतान होने के कारण मेरी पत्नी एवं मेरे पुत्र को उनकी विधवा माता/नानी से भी सहयोग प्राप्त होता है।)

### **Point NO-2**

वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर	M.O.D. Balance - 26,12,460/-
	<u>Saving Balance- 5,61,674/-</u>
	Total Balance - 31,74,134 /-

वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर	M.O.D. Balance - 4,62,000/-
	<u>Saving Balance- 76,599/-</u>
	Total Balance - 5,38,599 /-

वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर	M.O.D. Balance - 4,65,019/-
	<u>Saving Balance- 3,981/-</u>
	Total Balance - 4,69,000 /-

(यद्यपि कि मेरी पत्नी वर्तमान समय में जिला उपभोक्ता एवं प्रतिरोष आयोग वाराणसी में स्थायी महिला सदस्या के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन जिस वित्तीय वर्ष का विवरण दिया गया है उस समय वह अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत थी, इसलिए कोई निश्चित आय न होने के कारण उनके द्वारा अपने बैंक खाते में M.O.D. नहीं कराया गया था। इसी प्रकार विद्यार्थी पुत्र का भी बैंक खाते में भी M.O.D. नहीं है।)

### **Point NO-3**

इसी प्रकार महोदय द्वारा LIC Policy No. 211931424, LIC Policy No. 235214952, LIC Policy No. 212033411, के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018-2019 एवं 2019-20 में जमा की गयी प्रीमियम किशत का विवरण आहूत किया गया।

इस संबंध में विनम्र निवेदन के साथ कहना है कि इन तीनों पॉलिसियों का उल्लेख स्टेटमेंट के कॉलम नं0 6 में उन LIC Policies के रूप में किया गया है, जिनमें समस्त प्रीमियम किशतों का भुगतान किया जा चुका है और जिनकी परिपक्वता राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-2021 या उसके बाद होना है।(चूंकि ऑनलाइन पहली बार संपत्ति का विवरण प्रेषित

किया जा रहा था, इसलिए सेवा प्रारंभ से लेकर समस्त Investments का विवरण प्रेषित करने के उद्देश्य से मैंने उन बीमा पॉलिसियों तथा Investments का भी उल्लेख कर दिया है, जिनमें अब कोई प्रीमियम अदा किया जाना शेष नहीं है, लेकिन अभी परिपक्वता राशि का भुगतान होना शेष है, इसीलिए इन पॉलिसीज का भी उल्लेख कर दिया है। )

माननीय महोदय द्वारा तीनों पॉलिसियों के संबंध में बांछित विवरण निम्नवत है:-

1. LIC Policy No. 211931424 को दिनांक 28-12-1997 में लिया गया था और 8,252/-रुपये वार्षिक धनराशि की अंतिम किश्त दिनांक 24-12-2014 को जमा की जा चुकी है।
2. LIC Policy No. 235214952 एकल प्रीमियम पॉलिसी है। 68,086/-रुपये की यह पॉलिसी दिनांक 04-07-2011 को लीं गयी थी। एकल किश्त होने के कारण इसमें अन्य कोई किश्त जमा नहीं की गयी।
3. LIC Policy No. 212033411 मेरी पत्नी के नाम दिनांक 28-09-1998 को प्रारंभ की गयी थी और 3,555/-रुपये वार्षिक धनराशि की अंतिम किश्त दिनांक 28-09-2017 को जमा की जा चुकी है।

आख्या माननीय महोदय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

प्रार्थी,

(अश्वनी कुमार दूबे)

प्रधान न्यायाधीश,

परिवार न्यायालय, मुरादाबाद ।

आई 0 डी 0 - यू०पी० 5795

29/3/2023